



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1667]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 11, 2010/श्रावण 20, 1932

No. 1667]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 11, 2010/SHRAVANA 20, 1932

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2010

का.आ. 1978(अ).—भवन उप-नियमों के खण्ड 23.16 के उपबंधों और दिनांक 4 अप्रैल, 2008 के सं. का.आ. 817(अ) की अधिसूचना द्वारा इसमें किए गए संशोधनों के अनुसरण में, सरकार ने दिनांक 9 फरवरी, 2010 से तीन वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 20 नवम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1964(अ) के द्वारा गठित निम्नलिखित सदस्यों वाली विरासत संरक्षण समिति (एचसीसी) की सतत नियुक्ति का अनुमोदन किया है :-

- | | | |
|-----|---|-------------|
| 1. | विशेष सचिव/अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय | —अध्यक्ष |
| 2. | अपर डीजी (आर्क.) सीपीडब्ल्यूडी | —सदस्य |
| 3. | केन्द्रीय डिजाइन संगठन, सीपीडब्ल्यूडी में मुख्य अभियंता (स्ट्रक्चर) | —सदस्य |
| 4. | मुख्य नियोजक, टीसीपीओ | —सदस्य |
| 5. | मुख्य नगर नियोजक, एमसीडी | —सदस्य |
| 6. | आयुक्त (आयोजना), डीडीए | —सदस्य |
| 7. | चीफ आर्किटेक्ट एनडीएमसी | —सदस्य |
| 8. | महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधि | —सदस्य |
| 9. | श्री डी. एस. मेशराम, शहरी डिजाइनर | —सदस्य |
| 10. | श्री जे. पी. जोशी (इतिहासकार) | —सदस्य |
| 11. | प्रो. ए.जी.के. मेनन (संरक्षण आर्किटेक्चर) | —सदस्य |
| 12. | प्रो. एम. शाहीर (पर्यावरण) | —सदस्य |
| 13. | निदेशक, प्राकृतिक इतिहास राष्ट्रीय संग्रहालय (प्राकृतिक इतिहासकार) | —सदस्य |
| 14. | प्रो. के. टी. रविन्द्रन, शहरी डिजाइनर | —सदस्य |
| 15. | सुश्री गुरमीत एम. राय, निदेशक, सांस्कृतिक संसाधन संरक्षण पहल | —सदस्य |
| 16. | संयोजन, दिल्ली चैप्टर, आईएनटीएसीएच | —सदस्य |
| 17. | सचिव, दिल्ली नगर कला आयोग | —सदस्य-सचिव |

[फा. सं. के-12016/6/2003-डीडी I बी]

यू. विश्वनाथम, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2010

S.O. 1978(E).—In pursuance of the provisions of Clause 23.16 and modifications made to Building Bye-Laws *vide* notification No. S.O. 817(E) dated 4th April, 2008, the Government has approved the continued appointment of the Heritage Conservation Committee (HCC) with the following members constituted *vide* notification No. S.O. 1964(E), dated 20th November, 2007, for a further period of three years w.e.f. 9th February, 2010 :—

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Special Secretary/Additional Secretary, Ministry of Urban Development | —Chairman |
| 2. Addl. DG (Arch.), CPWD | —Member |
| 3. Chief Engineer (Structure) in the Central Design Organisation, CPWD | —Member |
| 4. Chief Planner, TCPO | —Member |
| 5. Chief Town Planner, MCD | —Member |
| 6. Commissioner (Plg.), DDA | —Member |
| 7. Chief Architect, NDMC | —Member |
| 8. Representative of DG, ASI | —Member |
| 9. Sh. D.S. Meshram (Urban Designer) | —Member |
| 10. Shri J.P. Joshi (Historian) | —Member |
| 11. Prof. A.G.K. Menon (Conservation Architecture) | —Member |
| 12. Prof. M. Shaheer (Environment) | —Member |
| 13. Director, National Museum of Natural History (Natural History) | —Member |
| 14. Prof. K.T. Ravindran, Urban Designer | —Member |
| 15. Ms. Gurmeet S. Rai, Director, Cultural Resource Conservation Initiative | —Member |
| 16. Convener, Delhi Chapter, INTACH | —Member |
| 17. Secretary, DUAC | —Member-Secretary |

[F.No. K.-12016/6/2003-DDIB]

U. VISWANADHAM, Under Secy.